

प्रेस विज्ञप्ति थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 20.10.2020

रूपये की लेन देन में हुई हत्या की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 20.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) , पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 759/20 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 के घटना का अनावरण क्राइम ब्रान्च की टीम/ थाना चौरी चौरा के प्रभारी निरीक्षक के टीम द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

दिनांक 19.10.2020 को ग्राम बेलवा बाबू के ग्रामवासियों द्वारा थाना चौरी चौरा पर सूचना दी गयी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव लक्ष्मी गुप्ता के धान के खेत में पड़ा हुआ है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है , सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा मय पुलिस बल के साथ घटना स्थल बेलवा बाबू पहुँचे मृतक का शव ग्राम बेलवा बाबू में सड़क के किनारे स्थित लक्ष्मी गुप्ता के खेत में खुन से लतफथ पड़ा हुआ था मौके पर एकत्र भीड़ से शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा था कि इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र से इन्द्रासन उर्फ मन्टू उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र रामा निषाद निवासी संझाई नूरुदीन चक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 18.10.2020 से गायब है जिनके परिजन थाने पर पहुँचे हुये है परीजनों को शिनाख्त हेतु मौके पर भेज रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मृतक के पिता रामा निषाद , ससुर राजेन्द्र प्रसाद, धर्मेन्द्र कुमार, रामचन्द्र निषाद, ओमप्रकाश आदि आये और मृतक की शिनाख्त करते हुये बताये कि इनका नाम व पता इन्द्रासन उर्फ मन्टू उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र रामा निषाद निवासी संझाई नूरुदीन चक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर है जो जमीन खरीद फरोक्त का काम करते थे दिनांक 18.10.2020 को घर यह से यह बताकर गये थे की मैं कन्हैया के पास बकाया पैसा लेने जा रहा हूँ मुझे बुलाया है देर रात तक नहीं लौटे काफी तलाश किया गया परन्तु मोबाइल से सम्पर्क होना बन्द हो गया था जिसके सम्बन्ध में थाना चौरी चौरा पर मृतक के पिता रामा निषाद पुत्र स्व0 पांचू निवासी संझाई नूरुदीन चक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 759/2020 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत कराया घटना का सफल अनावरण करते हुये क्राइम बान्च व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तगण 1-रमेश उर्फ रोशन पुत्र छोटेलाल निवासी बेलवा रायपुर पोखरा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर वर्तमान पता H.N. सिंह चौराहा मन्झा टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. संकेश कुमार पुत्र स्व0 रामाश्रय निवासी महमूदाबाद थाना पिपराईच रोड थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर 3. रफीक पुत्र मुख्तार निवासी महमूदाबाद थाना पिपराईच रोड थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर 4- प्रवीण कुमार उर्फ सचिन पुत्र रामकिशुन निवासी नवापार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को दिनांक 20.10.2020 को गिरफ्तार किया गया पूछताछ वैज्ञानिक/ इलेक्ट्रानिक व उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मृतक इन्द्रासन उर्फ मन्टू उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र रामा निषाद निवासी संझाई नूरुदीन चक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर ने अपने परिचय से कन्हैया उर्फ कन्हई को नौतनवा में जिसकी शिवम मार्बल टाईल्स की दुकान है और मोहरीपुर में किराये की मकान में रहता है 15 लाख रूपया का टाईल्स उधार में दिलवाया था यह पैसा कन्हैया के पास उधार के रूप में बाकी था मन्टू बाकी पैसा बार बार माँगने के लिये कन्हैया के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। मन्टू का पैसा वापस न करना पड़े इसलिए कन्हैया ने सहयोगियों के साथ मन्टू की हत्या की योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 18.10.2020 को सायं काल 5-6 बजे के आस पास इन्द्रासन उर्फ मन्टू को कन्हैया ने यह कहा कि तुम्हारा बकाया पैसा नौतनवा में मिलेगा चलो वही पर दंगे मन्टू अपने सिफ्ट डिजायर कार सं0- UP53DE0301 से कन्हैया को साथ लेकर नौतनवा गये। पीछे पीछे सहअभियुक्तगण रमेश , रफीक, संकेश मोटरसाइकिल से नौतनवा पहुँचे वहाँ रात 10 बजे तक योजनाबद्ध तरीके से बातचित करते हुये मन्टू को रोके रहे। कन्हैया व रमेश इन्द्रासन उर्फ मन्टू के साथ खाना पीना खाये और शराब भी नौतनवा में पिलाये। नौतनवा से करीब 10.30 बजे रात में वापस उसी सिफ्ट डिजायर कार से चले। मन्टू कार चला रहा था रमेश कार में आगे बैठ गया , कन्हैया पीछे बैठ गया गोरखपुर शहर में आकर संकेश भी कार में कन्हैया के बगल में पीछे बैठ गया। जबकि रफीक मोटरसाइकिल से पीछे पीछे योजनाबद्ध तरीके से कार के पीछे लगा रहा, कन्हैया ने यह कहा कि पैसा चौरी चौरा में रखा है वहाँ मिलेगा कि वहाँ सभी लोग चौरी चौरा क्षेत्र में सरैया जगदीशपुर रोड पर चलते हुये बिरान सड़क की ओर पहुँच गये। अचानक कार में पीछे बैठे कन्हैया और संकेश ने गमछे से कार चला रहे मन्टू का गला कस दिये कि आगे बैठे रमेश ने हाथ पकड़ लिया और स्टेरिंग काबू कर कार बन्द कर दिया फिर सभी लोग मन्टू को बगल के खेत में डाल दिये तभी मोटरसाइकिल से पीछे से रफीक भी आ गया और योजनाबद्ध तरीके से कन्हैया ने चाकू से इन्द्रासन उर्फ मन्टू का गला काट दिया। फिर वापस गोरखपुर शहर में आकर गुलरिहा क्षेत्र में कार को छोड़कर कन्हैया के अलावा सभी लोग अपने अपने घर चले गये। कन्हैया के व्यवसायिक सहयोगी व उसके मित्र परवीन कुमार ने सुरक्षित अपने मोटरसाइकिल से वापस नौतनवा ले गया व छिपने में मदद किया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों का नाम व पता-

- 1-रमेश उर्फ रोशन पुत्र छोटेलाल निवासी बेलवा रायपुर पोखरा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर वर्तमान पता H.N. सिंह चौराहा मन्झा टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. संकेश कुमार पुत्र स्व0 रामाश्रय निवासी महमूदाबाद थाना पिपराईच रोड थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।
3. रफीक पुत्र मुख्तार निवासी महमूदाबाद थाना पिपराईच रोड थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

4. प्रवीण कुमार उर्फ सचिन पुत्र रामकिशुन निवासी नवापार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार का स्थान व दिनांक-

दिनांक-20.10.2020 स्थान सोनबरसा बाजार सिनेमा तिराहा पिपराईच रोड

अभियुक्तों के पास से बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद A.T.M. कार्ड 2. एक अदद आधार कार्ड 3. एक अदद ड्राइविंग लाइसेन्स, 4. एक अदद गले का चैन पीली धातू (मृतक इन्द्रासन उर्फ मन्टू) 5. घटना में प्रयुक्त कार सिफ्ट डिजायर सं0-UP53DE0301 जो मृतक की है 6. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल हिरो HF डिल्क्स सं0- UP53BL3702

अभियुक्तों को जिन मुकदमें में गिरफ्तार किया गया है विवरण-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	759/2020	302/201/120बी भा0द0वि0	चौरी चौरा	गोरखपुर

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. रफीक पुत्र मुख्तार निवासी महमूदाबाद थाना पिपराईच रोड थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।

1. मु0अ0सं0 493/2004 धारा 41/109 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0 480/2006 धारा 41/109 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 242/2016 धारा 354/323/452/504/506 भा0द0वि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0- 94/2016 धारा 420/406 भा0द0वि0 थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर ।

गिरफ्तार करने वाले टीम का नाम पता-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।
2. निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला अपराध शाखा जनपद गोरखपुर ।
3. उ0नि0 सादिक परवेज प्रभारी स्वाट टीम जनपद गोरखपुर ।
4. उ0नि0 चन्द्रभान सिंह प्रभारी S.O.G. क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
5. व0उ0नि0 अश्वनी कुमार तिवारी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।
6. उ0नि0 प्रणव कुमार ओझा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।
7. हे0का0 विपेन्द्र मल्ल, स्वाट टीम (क्राइम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर ।
8. हे0का0 योगेश सिंह, S.O.G जनपद गोरखपुर ।
9. हे0का0 राजमंगल सिंह, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
10. का0 रशीद अख्तर खान, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
11. का0 सनातन सिंह, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
12. का0 धीरेन्द्र सिंह, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
13. का0 मोहसीन खाँ, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
14. का0 प्रदीप राय, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
15. का0 कुतुबुद्दीन, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
16. का0 धर्मेन्द्र नाथ तिवारी, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
17. का0 शिवानन्द उपाध्याय, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
18. का0 इन्द्रेश कुमार वर्मा, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
19. का0 रणवीर सिंह, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
20. का0 अरूण कुमार यादव, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
21. का0 गणेश शंकर पाण्डेय, क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर ।
22. का0 अजय कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।
23. का0 मनीष यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।

नोट:- घटना का सफल अनावरण 12 घण्टे के अन्दर किया गया ।